

**थाना कटरा पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता,  
धोखाधड़ी कर खाली बोतले में सस्ती शराब भरकर महंगे ब्राण्ड बनाकर बेचने वाले गिरोह का भण्डाफोड,  
01 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब, महंगे ब्राण्ड के ढक्कन, रेपर, सिरिंज आदि बरामद ।**

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब का निष्कर्षण/अपमिश्रित, अवैध मदिरा की बिक्री व कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में श्री निपुण अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 10.01.21 की रात्रि को 22.45 बजे थाना कटरा व आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बराबर में स्थित दुकान पर छापे मारी की गयी तो अंग्रेजी शराब की दुकान से सटी हुयी दुकान से अभियुक्त राजेश पुत्र राजकुमार नि०मो० पचासा थाना तिलहर जनपद शाह० धोखाधड़ी कर सस्ती शराब को महंगे ब्रांड की बोतलो में भरकर बेचने का किया भंडाफोड कर भारी मात्रा में शराब, खाली बोतले ढक्कन, सूजा, सिरिंज के साथ गिरफ्तार किया गया । जबकि दो अभियुक्त-1- सौरभ 2- अरविन्द भागने में सफल रहे । इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु०अ०सं० 20/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि० व 420/467/468 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है । पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम महंगी शराब के ढक्कन मंगाते थे तथा महंगे ब्रांड की खाली बोतले कबाड से लेकर उनमें शराब भरकर महंगे दामों पर बेचते थे । फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा है । अभियुक्त से पूछताछ के मध्य जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1-राजेश पुत्र राजकुमार नि०मो० पचासा थाना तिलहर जनपद शाह०

**फरार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. सौरभ पुत्र नामालूम नि०ग्रा० लखुआ थाना तिलहर जनपद शाह०
2. अरविन्द पुत्र नामालूम नि०ग्रा० खनपुरा थाना तिलहर जनपद शाह०

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 04 पेटी ट्रेटर पैक आफिसर च्वाइस, हाई इम्पेक्ट, व 8PM ब्राण्ड के, 2- 09 बोतलो में इन्जेक्शन के द्वारा ट्रेटर पैक से निकाल कर भरी हुई अवैध शराब, 3-विभिन्न ब्रांडों के 428 ढक्कन 4-04 बड़े अदद सिरिंज 5-02 अदद सूजा 6- 03 प्लास्टिक की बोरियो में विभिन्न ब्रांडों के बोतले ।

**आपराधिक इतिहास:-**

1-राजेश पुत्र राजकुमार नि०मो० पचासा थाना तिलहर जनपद शाह०

मु०अ०सं० 20/2021 धारा 60(1) आबकारी अधि० व 420/467/468 भादवि थाना कटरा जनपद शाह०

कार्यक्षेत्र:-

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. आबकारी निरीक्षक श्री फरजन्द अली जनपद शाह०
2. उ०नि० श्री दिलीप कुमार सिंह थाना कटरा जनपद शाह०
3. हे०का० 56 प्रमोद कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
4. का० 49 निर्मल सिंह थाना कटरा जनपद शाह०
5. का० 1805 प्रभात कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
6. का० 2273 नितिन कुमार थाना कटरा जनपद शाह०